

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1973/माघ 27, 1894

No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1973/MAGHA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 15th February 1973

No. 1/19/71-Ad. C.—The undermentioned name is added to the names of members of the Advisory Council on Trade as given in the schedule to this Ministry Resolution No. 1/19/71-Ad. C, dated 20th January, 1973:—

II—Members of Parliament

8. Shri Monoranjan Hazra.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Advisory Council on Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1973

संख्या 1/19/71-एड० सी०.—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/19/71-एड० सी०, दिनांक 21-1-1973 की अनुसूची में व्यापार सलाहकार परिषद् में यथा निर्दिष्ट सदस्यों के नामों में निम्नलिखित नाम जोड़ा जाता है :—

2—संसद सदस्य]

8. श्री मनोरंजन हाजरा]

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत में सभी राज्य सरकारों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० एस० नारंग,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।